



AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, INDIA Tel.: +91-11-49991700 Fax : +91-11-49991800 Email : aksh@akshoptifibre.com Website : www.akshoptifibre.com CIN NO. : L24305RJ1986PLC016132

November 16, 2020

To,

National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,	Phiroze Jeejeebhoy Towers
Bandra(E), Mumbai – 40005	Dalal Street, Bombay-400 001

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Newspaper Publication of "Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020" published in "The Financial Express" and "Lokmat" in compliance with Regulation 30 of Listing Regulation, 2015.

Kindly acknowledge the same.

For Aksh Optifibre Limited



Gaurav Mehta Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

We smarten up your life..TM

Regd. Office : F-1080, RIICO Industrial Area Phase-III, Bhiwadi – 301019 (Rajasthan) INDIA Phones : +91-1493-220763, 221333 | Fax : +91-1493-221329

SATURDAY, NOVEMBER 14, 2020 24 BACK PAGE

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EVADES

let Profit / (Loss) for the period before tax (after	248.00	26	9.36	133.91	254.52	276.63	133.94	1	(Listing a
xceptional and/or Extraordinary items#)		and house			LUTIOL	210.00	100.84	-	Novembe
let Profit / (Loss) for the period after tax (after ixceptional and/or Extraordinary items#)	187.35	1 20.	3.33	96.66	191.91	208.42	96.54		2. On July 18
otal Comprehensive Income for the period	324.52	41-	4.71	138.17	327.29	417.80	138.69	-	company, sharehold
Comprising Profit / (Loss) for the period (after (x) and Other Comprehensive Income (after tax))		and the set	Part 1	19-18-11-1		122	1 tone		for demer
aid-up equity share capital	1,997.49	1,991	7.49 1,	997.49	1,997.49	1,997,49	1,997,49		from Dece
Face value Rs. 10 per sharej							1,001.10		The Sche were reca
arnings Per Share (of Rs. 10/- each) or continuing and discontinued operations) -			1. Su	10			a stations		Combinat
asic:	0.94	10 58 54	.02	0.48	0.96	1.04	0.48		were trans
luted:	- 0.94		.02	0.48	0.96	1.04	0.48		 Previous y The full for
Stock Exchanges under Regulation 33 of the consolidated Financial Results for the three mc Company's website www.apcorvaleasingfin # - Exceptional and/or Extraordinary items adju te: 13.11.2020 ce: Delhi	onths ended on nance.com.	30th Septemb	er, 2020 are av t and Loss in ac	ailable on the S cordance with I	itock Exchange	website www.bs AS Rules, which Investment C	seindia.in and th	e. e. gi	Date *: Nov Place : Mur
Registered Office: Corporate Office: A 32, 2 EXTRACT OF STANDALONE FINAL	and Floor, Moh	an Co- opera	tive Indi. Estat	e, Mathura Ro	ad, New Delhi- ENDED SEP	110 044 TEMBER 30, :			S FINAN
							t per share data		-
Particulars	1921				10000	ar Ended	Year Ended		and the second s
0.	a state of the second second	Sep/20	Jun/20	Sep/19	Sep/20	Sep/19	Mar/20	e	
9 .		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	Sep/20 (Unaudited)	(Unaudited)	Mar/20 (Audited)	S	575
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except)									575
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except)	tional items)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88)	(Unaudited) 6,425,19 (615.81) (593.59)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24)	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65)		0.
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except Net Profit for the period before tax (after except Net Profit for the period after tax (after except Total Comprehensive Income for the period (onal items) onal items)	(Unaudited) 8,093.58 428.78	(Unaudited) 4,173.34 (511.28)	(Unaudited) 6.425.19 (615.81)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50)	(Unaudited) 14,274.50 (743.56)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49)	N.	o. Total incon 2 Net profit/(
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Con Income (after tax)]	otional items) onal items) (Comprising mprehensive	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88)	(Unaudited) 6,425,19 (615.81) (593.59)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24)	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65)	N.	o. Total incon Net profit/(exceptional
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except Net Profit for the period before tax (after except Net Profit for the period after tax (after exception Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Con Income (after tax)) Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 eacl	otional items) onal items) (Comprising mprehensive	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05)	(Unaudited) 6,425.19 (615.81) (593.59) (387.45)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) .8,134.90	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65) (24,773.32) (24,933.96) 8,134.90	N.	o. Total incon Net profit/(exceptional Net profit/(
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and excepting Net Profit for the period before tax (after excepting Net Profit for the period after tax (after excepting Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)) Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each)	otional items) onal items) (Comprising mprehensive	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 283.40 8,134.90	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) (343.05) 8,134.90	(Unaudited) 6,425,19 (615,81) (593,59) (387,45) (390,35) 8,134,90	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65)	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65) (24,773.32) (24,933.96)	N.	 Total incom Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and excepting Net Profit for the period before tax (after excepting) Net Profit for the period after tax (after exception) Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Conditions Income (after tax)) Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other equity	otional items) onal items) (Comprising mprehensive	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 283.40	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) (343.05)	(Unaudited) 6,425.19 (615.81) (593.59) (387.45) (390.35)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) .8,134.90	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65) (24,773.32) (24,933.96) 8,134.90	1 2 3 4	o. Total incom Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other equity Earnings Per Share (of Rs. 6/- each) Basic : Diluted:	bitional items) onal items) (Comprising mprehensive sh)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 283.40 8,134.90 0.17 0.17	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21)	(Unaudited) 6,425,19 (B15,B1) (593,59) (387,45) (390,35) 8,134,90 (0.24) (0.24)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) .8,134.90 (0.04) (0.04)	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29)	(Audited) 25,514,44 (1,661,49) (25,256,65) (24,73,32) (24,933,96) 8,134,90 18,320,95 - (15,23) (15,23)	N1 2 3	0. Total incom Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Total comp
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after excepted) Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 eacl Other equity Earnings Per Share (of Rs. 6/- each) Basie :	bitional items) onal items) (Comprising mprehensive sh)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 283.40 8,134.90 0.17 0.17	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21)	(Unaudited) 6,425,19 (B15,B1) (593,59) (387,45) (390,35) 8,134,90 (0.24) (0.24)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) 8,134.90 (0.04) (0.04) R ENDED SEF	(Unaudited) 14.274.50 (743.56] (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) TEMBER 30,	(Audited) 25,514,44 (1,661,49) (25,256,65) (24,73,32) (24,933,96) 8,134,90 18,320,95 - (15,23) (15,23)	N. 1 2 3 4 5	o. Total incon Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Total comp [comprising and other c
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA	bitional items) onal items) (Comprising mprehensive sh)	(Unaudited) 8,093,58 428,78 429,64 283,40 8,134,90 0.17 0.17 ULTS FOR T	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) HE QUARTER Quarter Ended	(Unaudited) 6,425,19 (615,81) (593,59) (387,45) (390,35) 8,134,90 (0.24) (0.24) R/HALF YEAF	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) R ENDED SEF Rs. Half Ye	(Unaudited) 14.274 50 (743.56] (712.66) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) TEMBER 30, in lakhs except ar Ended	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.55) (24,773.32) (24,933.96) 8,134.90 18,320.95 (15.23) (15.23) (15.23) 2020 per share data Year Ended	Ni 1 2 3 4 5	o. Total incon 1 Total incon 2 Net profit/(exceptional 3 Net profit/(exceptional 4 Net profit/(exceptional 5 Total comp [comprising and other c 6 Paid-up equ
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Con Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other equity Earnings Per Share (of Rs. 6/- each) Basis : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulars	titional items) onal items) (Comprising mprehensive sh)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 8,134.90 0,17 0,17 ULTS FOR T Sep/20 (Unaudited)	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21) HE QUARTER Quarter Ended Jun/20 (Unaudited)	(Unaudited) 6,425,19 (315,81) (593,59) (387,45)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) RENDED SEF Rs. Half Ye. Sep/20	(Unaudited) 14.274 50 (743.56] (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) PTEMBER 30, in lakhs except	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65) (24,773.32) (24,933.96) 8,134.90 18,320.95 - (15.23) (15.23) 2020 per share data	N. 1 2 3 4 5	o. Total incon 2 Net profit/(exceptional 3 Net profit/(exceptional 4 Net profit/(exceptional i Total comp [comprising and other c i Paid-up equ i Reserves
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 eac) Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulars Total income from operations	titional items) onal items) (Comprising mprehensive (h)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 8,134.90 0.17 0.17 0.17 0.17 JLTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126.96	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21) HE QUARTEF Quarter Ended Jun/20 (Unaudited) 4,934.08	(Unaudited) 6,425,19 (315,81) (593,59) (387,45) (387,45) (380,35) 8,134,90 (0,24) (0,25) (0,24) (0,2	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) PTEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643.69	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.55) (24,733.2) (24,733.29) (24,933.96) 8,134.90 18,320.95 (15.23) (15.23) (15.23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272.68	Nu 1 2 3 4 4 5 5 5 7	0. 1 Total incon 2 Net profit/(exceptional 3 Net profit/(exceptional 4 Net profit/(exceptional 6 Total comp [comprising and other c 1 Paid-up equ Reserves 2 Earnings/(Lo each) (for c
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Con Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other equity Earnings Per Share (of Rs. 6/- each) Basis : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulars	tional items) onal items) (Comprising mprehensive sh) ANCIAL RESU	(Unaudited) 8,093,58 428,78 429,64 283,40 8,134,90 0,17 0,17 0,17 JLTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126,96 (360,07)	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) HE QUARTER Quarter Endect Jun/20 (Unaudited) 4,934.08 (1,272.83)	(Unaudited) 6,425,19 (315,81) (593,59) (387,45) (387,45) (380,35) 8,134,90 (0.24) (0.26) (0.	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) RENDED SEF Rs. Half Ye. Sep/20 (Unaudited) 14,061.04 (1,632.90)	(Unaudited) 14,274,50 (743,56] (712,65) (473,79) (477,15) 8,134,90 (0.29) (0.29) (0.29) 0.29) PTEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643,59 (1,801,50)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65) (24,773.32) (24,933.96) 8,134.90 18,320.95 * (15.23) (15.23) (15.23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272.68 (4,729.37)	Nu 1 2 3 4 4 5 5 5 7	O. Total incon Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Total comp [comprising and other c Paid-up equ Reserves Earnings/(Lc each) (for c Basic:
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulars Total income from operations Net Profit for the period (before tax and exception) Net Profit for the period (before tax and exception) Net Profit for the period (before tax and exception) Net Profit for the period after tax (after exception) Net Profit for the period former tax (after exception) Net Profit for the period before	tional items) onal items) (Comprising mprehensive ih) ANCIAL RESL (ional items) tional items)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 8,134.90 0.17 0.17 0.17 0.17 JLTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126.96	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21) HE QUARTEF Quarter Ended Jun/20 (Unaudited) 4,934.08	(Unaudited) 6,425,19 (315,81) (593,59) (387,45) (387,45) (380,35) 8,134,90 (0,24) (0,25) (0,24) (0,2	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) PTEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643.69	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.55) (24,733.2) (24,733.29) (24,933.96) 8,134.90 18,320.95 (15.23) (15.23) (15.23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272.68	Nu 1 3 4 5 6 7 8	0. 1 2 Net profit/(exceptional 3 Net profit/(exceptional 4 Net profit/(exceptional 4 Net profit/(exceptional 6 Total comp [comprising and other c 1 Paid-up equ Reserves 1 Paid-up equ Reserves 2 Earnings/(Lc Basic: Diluted:
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 eacl Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted: Particulars Particulars Total income from operations Net Profit for the period after tax (after exception Net Profit for the period after tax) and exception Net Profit for the period after tax) Description Particulars	tional items) onal items) (Comprising mprehensive th) ANCIAL RESU ional items) tional items) ptional items) ptional items)	(Unaudited) 8,093,58 428,78 429,64 283,40 283,40 8,134,90 0,17 0,17 0,17 JLTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126,98 (360,07) (359,21)	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) HE QUARTER Quarter Endect Jun/20 (Unaudited) 4,934.08 (1,272.83) (1,273.43)	(Unaudited) 6,425.19 (515.81) (593.59) (387.45) 8,134.90 (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) X/HALF YEAF (Unaudited) 7,403.81 (1,268.63) (1,250.56)	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.50) (59.65) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0	(Unaudited) 14,274,50 (743,56] (712,65) (473,79) (477,15) 8,134,90 (0.29) (0.29) 0(0.29) PTEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643,59 (1,801,50) (1,770,60)	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65) (24,773.32) (24,933.96) 8,134.90 18,320.95 (15.23) (15.23) (15.23) (15.23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272.68 (4,729.37) (36,644.52)	Nu 1 3 4 5 6 7 8 8	0. 1 2 Net profit/(exceptional 8 Net profit/(exceptional 4 Net profit/(exceptional 4 Net profit/(exceptional 6 Total comp 1 Total comp 1 Total comp 1 Total comp 1 Paid-up equ 1 Reserves 1 Earnings/(Lc 9aid: Diluted: 0text: 1
A Total income from operations Net Profit for the period (before tax and exception) Net Profit for the period before tax (after exception) Net Profit for the period after tax (after exception) Total Comprehensive (after tax) and Other Contincome (after tax)) Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each) Basic : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulars Total income from operations Net Profit for the period (before tax and exception) Basic : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulars Total income from operations Net Profit for the period (before tax and exception) Net Profit for the period after tax) and Other comproduces (after tax) and Other comproduces (after tax))	tional items) onal items) (Comprising mprehensive ih) ANCIAL RESU (ional items) tional items) tional items) comprising mprehensive	(Unaudited) 8,093.58 429.64 429.64 283.40 8,134.90 0.17 0.17 ULTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126.96 (360.07) (359.21) (491.21) (114.66)	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21) HE QUARTER Quarter Endec Jun/20 (Unaudited) 4,934.08 (1,272.83) (1,107.44) (1,157.59)	(Unaudited) 6,425,19 (615,81) (593,59) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (387,45) (393,57) (0,24) (0,25) (0,	(Unaudited) 12,266.92 (82.60) (82.24) (59.65) .8,134.90 (0.04) (0.104) (0.52.00) (1.532.00) (1.598.65) (1.272.25)	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15) 8.134.90 (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) PTEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643.69 (1,801.50) (1,472.69) (1,317.91)	(Audited) 25,514,44 (1,661,49) (25,256,65) (24,773,32) (24,933,96) 8,134,90 18,320,95 (15,23) (15,23) (15,23) (15,23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272,68 (4,729,37) (36,644,52) (35,930,50) (36,6321,91)	Nu 1 3 4 5 6 7 8 8	0. 1 Total incon 2 Net profit/(exceptional 8 Net profit/(exceptional 6 Net profit/(exceptional 6 Total comp [comprising and other c 1 Total comp [comprising and other c 2 Paid-up equ Reserves 2 Earnings/(Lc Basic: Diluted: 0 Diluted:
Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 eacl Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted: Particulars Particulars Total income from operations Net Profit for the period after tax (after exception Net Profit for the period after tax) and exception Net Profit for the period after tax) Description Particulars	tional items) onal items) (Comprising mprehensive ih) ANCIAL RESU (ional items) tional items) tional items) comprising mprehensive	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 8,134.90 0.17 0.17 0.17 JLTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126.96 (360.07) (359.21) (491.21)	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) HE QUARTEF Quarter Endect Jun/20 (Unaudited) 4,934.08 (1,272.83) (1,273.43) (1,107.44)	(Unaudited) 6,425,19 (315,81) (593,59) (387,45) (38	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.05) (0.04) (0.05) (0.04) (0.05) ((Unaudited) 14,274,50 (743,56] (712,65) (473,79) (477,15) 8,134,90 (0.29) (0.29) 0.29) PTEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643,59 (1,801,50) (1,770,60) (1,492,95)	(Audited) 25,514,44 (1,661,49) (25,256,65) (24,73,32) (24,73,32) (24,73,32) (24,73,32) (15,23) (15,23) (15,23) (15,23) (15,23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272,68 (4,729,37) (36,644,52) (35,930,50) (35,930,50) (35,932,91) 8,134,90	Nu 1 3 4 5 6 7 8 8	o. Total incom Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Total comprising and other cr Paid-up equ Reserves Earnings/(LC Basic: Diluted: otes : In terms of F ("financial researcher")
A Total income from operations Net Profit for the period (before tax and exception of the period (before tax (after exception)) Net Profit for the period before tax (after exception) Total comprehensive income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Confinction (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other confinction) Basic : Diluted: EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulars Total income from operations Net Profit for the period (before tax (after exception)) Net Profit for the period fafter tax) and Other confinction (after tax) Particulars Total income from operations Net Profit for the period (before tax (after exception)) Net Profit for the period after tax) and Other confince (after tax)) Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each Other confinction) Net Profit for the period (before tax) and Other confinction (after tax)) Paid-up Equity Capital (Facer Value Rs.5 each Other equity) Paid-up Equity Pa	tional items) onal items) (Comprising mprehensive ih) ANCIAL RESU (ional items) tional items) tional items) comprising mprehensive	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 8,134.90 0.17 0.17 0.17 0.17 JLTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126.96 (360.07) (359.21) (491.21) (114.66) 8,134.90 -	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21) (0.21) HE QUARTEF Quarter Ended Jun/20 (Unaudited) 4,934.08 (1,272.83) (1,107.44) (1,157.59) 8,134.90	(Unaudited) 6,425,19 (615,81) (593,59) (387,45) (387,45) (380,35) 8,134,90 (0,24) (0,25) (0,26) (0,26) (0,26) (0,26) (0,27) (0,2	(Unaudited) 12,266.92 (82.50) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.05) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (1.532.90) (1.532.65) (1.272.25) 8,134.90	(Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) 2TEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643.69 (1.801.50) (1,770.60) (1,492.95) (1,317.51) 8,134.90	(Audited) 25,514.44 (1,661.49) (25,256.65) (24,773.32) (24,933.96) 8,134.90 18,320.95 (15.23) (15.23) (15.23) 2020 per share dafa Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272.68 (4,729.37) (36,644.52) (35,930.50) (36,321.91) 8,134.90 4,610.20	Nu 1 2 3 4 4 5 5 8 8 7 8 8 Nu 1.	o. Total incom Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Total comprising and other ci Paid-up equ Reserves Earnings/(Lo each) (for ci Basic: Diluted: otes : In terms of F ("financial reserves at their meet auditors of th
A Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period defore tax (after except) Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (after tax) and Other Cor Income (after tax)] Pald-up Equity Capital (Face Value Rs.5 eacl Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted: Particulars Particulars Total Comprehensive Income for the period [Profit for the period (before tax and exception) Pasic : Diluted: Particulars Particulars Total income from operations Net Profit for the period after tax) and Other com Income (after tax)) Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each) Diate Comprehensive Income for the period [0 Profit for the period after tax) and Other com Income (after tax)] Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each) Basic : Diluted: a: The above is an extract of the detailed ft ing Obligations and Disclosure Requirement	tional items) onal items) (Comprising mprehensive ih) ANCIAL RESU ((ional items) tional items) tional items) biconal items) comprising mprehensive h)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 8,134.90 0.17 0.17 ULTS FOR T ULTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126.96 (360.07) (359.21) (491.21) (114.65) 8,134.90 - (0.30) (0.30) (0.30) (0.30) 1.21 (0.30)	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21) (0.21) HE QUARTER Quarter Ended Jun/20 (Unaudited) 4,934.08 (1,272.83) (1,273.43) (1,167.59) 8,134.90 	(Unaudited) 6,425.19 (315.81) (593.59) (387.45) (390.35) 8,134.90 (0.24) (0.25) (0.25	(Unaudited) 12,266.92 (82.60) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.1632.90) (0.1586.85) (0.272.25) 8,134.90 (0.98) ((Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) TEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643.59 (1,801.50) (1,770.60) (1,492.95) (1,317.91) 8,134.90 (0.92) (0.92) r Regulation 3 (0.92) (0.92) r Regulation 3 (0.92) (0.92) r Regulation 3 (0.92) (0.92) r Regulation 3 (0.92) (0.92) r Regulation 3 (0.92) (0.	(Audited) 25,514,44 (1,661,49) (25,256,65) (24,73,32) (24,933,96) 8,134,90 18,320,95 (15,23) (15,23) (15,23) (15,23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272,68 (4,729,37) (36,644,52) (35,930,50) (36,5321,91) 8,134,90 4,610,20 (22,08)	Nu 1 2 3 4 4 5 5 8 8 7 8 8 Nu 1.	O Total incom Total incom Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Net profit/(exceptional Total compi [comprising and other cr Paid-up equ Reserves Earnings/(Lo each) (for cr Basic: Diluted: otets: In terms of F ("financial re: at their meel auditors of th The above is Requirements
0. Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period before tax (after except) Net Profit for the period after tax (after except) Total Comprehensive Income for the period (Profit for the period (after tax) and Other Corincome (after tax)) Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each) Basic ; Diluted; EXTRACT OF CONSOLIDATED FINA Particulare Total income from operations Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period (before tax and except) Net Profit for the period after tax) and Other Corincome (after tax)) Particulare Total income from operations Net Profit for the period after tax (after except) Net Profit for the period (after tax) and Other Corincome (after tax)) Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each (Other equity) Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5/- each) Basic :	tional items) onal items) (Comprising mprehensive ih) ANCIAL RESU ((ional items) tional items) tional items) biconal items) comprising mprehensive h)	(Unaudited) 8,093.58 428.78 429.64 283.40 8,134.90 0.17 0.17 ULTS FOR T ULTS FOR T Sep/20 (Unaudited) 9,126.96 (360.07) (359.21) (491.21) (114.65) 8,134.90 - (0.30) (0.30) (0.30) (0.30) 1.21 (0.30)	(Unaudited) 4,173.34 (511.28) (511.88) (343.05) 8,134.90 (0.21) (0.21) (0.21) HE QUARTER Quarter Ended Jun/20 (Unaudited) 4,934.08 (1,272.83) (1,273.43) (1,167.59) 8,134.90 	(Unaudited) 6,425.19 (315.81) (593.59) (387.45) (390.35) 8,134.90 (0.24) (0.25) (0.25	(Unaudited) 12,266.92 (82.60) (82.24) (59.65) (59.65) (59.65) (0.04) (0.1632.90) (0.1586.85) (0.272.25) 8,134.90 (0.98) ((Unaudited) 14.274.50 (743.56) (712.65) (473.79) (477.15) 8,134.90 (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) TEMBER 30, in lakhs except ar Ended Sep/19 (Unaudited) 17,643.59 (1,801.50) (1,770.60) (1,492.95) (1,317.91) 8,134.90 (0.92) (0.92) r Regulation 3 (0.92) (0.92) r Regulation 3 (0.92) (0.	(Audited) 25,514,44 (1,661,49) (25,256,65) (24,73,32) (24,933,96) 8,134,90 18,320,95 (15,23) (15,23) (15,23) (15,23) 2020 per share data Year Ended Mar/20 (Audited) 30,272,68 (4,729,37) (36,644,52) (35,930,50) (36,5321,91) 8,134,90 4,610,20 (22,08)	Nu 1 2 3 4 5 5 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 9 8 9	0. 1 2 Net profit/(lexceptional 8 Net profit/(lexceptional 6 Net profit/(lexceptional 6 Total comprising 1 Total comprising 1 Total comprising 1 Paid-up equil 1 Reserves 1 Earnings/(Lo each) (for cr 1 Basic: Diluted: Diluted:

•

+

वन नेशन वन राशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियंत्राण कक्ष स्थापित

<mark>धौलपुर।</mark> वन नेशन वन राशन योजना <mark>के क्रियान्वयन के</mark> लिए जिला स्तर पर नियंत्राण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि नियंत्राण कक्ष में उपखण्ड स्तर के डाटा संग्रहण एवं आवश्यक निर्देश प्रसारण व प्रतिदिन एफपीएसवार सीडिंग कार्य की प्रगति की जानकारी उपलब्ध . कराएगें। प्रदीप राजीरिया, आईएलआर मोबाईल नम्बर 9460109827 नियंत्राण कक्ष के प्रभारी एवं राकेश गिरि आईएलआर मोबाईल नम्बर 7597152376 सह प्रभारी होगे। उन्होंने बताया कि मुरारी सिंह एवं शम्भू सिंह मीणा कनिष्ठ सहायक, उपखण्ड धौलपुर, राकेश गिरि आईएलआर गोविन्द बिहारी शर्मा कनिष्ठ महायव उपखण्ड बाड़ी, दिनेश चन्द आईएलआर, अशोक मीणा सूचना सहायक उपखण्ड बसेड़ी, सुरेन्द्र शर्मा पटवारी, विनोद गुप्ता वरिष्ठ सहायक को उपखण्ड राजाखेड़ा, दुष्यन्त पाराशर पटवारी, जय सिंह कनिष्ठ सहायक उपखण्ड सैंपऊ तथा विकास साहू सूचना सहायक, सचिन धौर्य कनिष्ठ सहायक को उपखण्ड सरमथुरा डाटा संग्रहण एवं वश्यक निर्देश प्रसारण के लिए नियुक्त किया गया है।

अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर लगाया प्रतिबन्ध

लपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय विभाग 'चुनाव 2020 11 दिसम्बर 2020 को कराए जाने की घोषणा की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से बिना अनमति के भवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार एवं विकास अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर से पर्व मिति प्राप्त किए बिना अवकाश पर नहीं जाएगें ना ही मुख्याल छोड़ेगे। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़ी एवं धौलपुर तथा समस्त ब्लॉक मख्य चिकित्मा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त चिकित्मा अधिकारी ु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक तथा समस्त ब्लॉक शिक्ष अधिकारियों को निर्देश दिए जाते है कि वह अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के अवकाश हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों को अपने क्षेत्र के उपखण्डधिकारी से सम्पर्क कर निस्तारण कराया जाना सनिशित करें। अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तत अवकाश अगण्या करा जापनगरा एव कलपार्था द्वारा अस्तुत अवकार प्रार्थना पत्रा पर सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष अपनी स्पष्ट अभिशंष किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

जला कलक्टर नेहरा ने जयपुरवासियों से की दीपावली पर आतिशबाजी नही करने की अपील



वे दीपावली का रोषन पर्व बिना आतिषबाजी के मनाएं। शुऋवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा फैसला लेकर प्रदेष में दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री एवं आतिषबाजी किए जाने पर पुरी

जयपुर। जिला कलकटन अन्तर सिंह नेहरा ने सभी जयपरवासियों से अपील की है

तरह रोक लगा दी गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण और ुल्हान कहा कि वर्शनान में कारगा नहांगरा के सक्रमण आर इसके फेफड़ों पर होने वाले स्थायी दुप्परिणाम के कारण वह व्यापक जन हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसकी पालना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा यह इसे सुनिधित किया जा रहा है कि कहीं पटाखों की बिक्री या आतिषयाजी नहीं हो। उन्होंने दीपावली को मिठाई, रोशनी, उल्लास और दूसरों को

खुषियां देने का त्योहार बताते हुए कहा कि थोड़ी देर की आतिषबाजी खुपत्र पर का राश्वर कार्या हुए रुवता के पाछ रूर का जाता राज्य रूर का जाता राज्य से किसी को जान पर बन आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पटाखों के निकलने बाले विषैले धुंप के कोरोना बायरस मंक्रमित रीगियों, बच्चों, अस्थमा के मरीजों, इदय रोगियों, बुजुर्गों एवं आमजन को बहुत परेषानी होती है। रायदी-समारोह में भी आतिषबाजी के उपयोग पर रोक लगा दी गई है।

नेहरा ने अपील की कि सभी मिलकर इस दीवाली म सोषल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजेवन के सभी आवश्यक नियमों की पालना करते हुए बिना आतिषबाजी रोशनी के इस पर्व को मनाएं। जिला प्रशासन "'राउण्ड द क्लॉक'' कन्टोल रूम और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ सदैव की भांति इस दीपावली पर भी सहायता के लिए तत्पर है।



प्रणेता तथा वैद्यक शास्त्रा के देवता भगवान धन्वंतरि की जयंती के अवसर कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस भी कहा जाता है। पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। कार्यक्रम के धन्वंतरि ही आयुर्वेद के रचयिता हैं, इसलिए भारत सरकार ने इस दिन को प्रारंभ में उन्होंने भगवान धनवंतरी का पूजा–अर्चना फल, फूल और दोप प्रज्वलित करके सभी के स्वास्थ और आयर्वेट टिवम' घोषित किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का मुख्य खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए आयु के देवता भगवान धनवंतरी लक्ष्य लोगों को निरोग रखना है। आज विभिन्न रोगों के कारण लोगों को लाखों रुपया चिकित्मा पर खर्च करना प?ता उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति

आयुर्वेद के जनक धनवंतरि को याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। खुद बदतर हो जाती है। आयर्वेद के निर्देशों का पालन कर और स्वस्थ दिनचर्या अपना कर हम निरोग रह सकते हैं। को स्वस्थ रखना है और कोरोना जैसी महामारी में कोरोना से मुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों व आसपास तुलसी, गिलोय, नीम, बेल, भी धन्वंतरि का अनुसरण करना होगा। समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण आप लेपन प्राय जैसे औषधीय यौधे त्रायोदशी को भगवान धन्वंतरि अमत लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना

सन्तोषजनक कार्य नहीं करने पर

चार डीलरों को दिए नोटिस

आधार केन्द्र से मिलने वाली 28 नम्बर वाली पर्ची से ई-मित्र केन्द्रों से आधार सीडिंग करवाए

दीपावली पर प्रत्येक घर में चाइनीज सामग्री का बहिष्कार हो

मिट्टी के दीए जलाकर दीपावली मनाई जाए



धन्वन्तरि जयन्ती का हुआ आयोजन

उत्तर पश्चिम रेलवे

भा ात्रसात्र गल पैकेट सिस्टम) के अतगत २ जिस करते हैं : (1) निविदा सूचना संख्या जनवाटी-जीसी-टी-64 (2) कार्य क

ई-लिबिदा सुफ त के राष्ट्रपति के लिये एवं ज के उपिकारी (निर्माग किस कार



योग व्यायाम व प्राणायाम करते रहने को

कहा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीईओ जिला परिषद शिवचरन मीणा ने निरोगी काया विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुये धन्वन्तरि की महत्ता का वर्णन किया। विकास अधिकारी राजेश लवानियां आयर्वेटिक चिकित्मक मनोज कमार आयुवादक विविधित्सक मनाज कुमार शर्मा, प्रज्ञा जैन, राजवीर शर्मा ने भी धन्वन्तरि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीडी आयुर्वेद डॉ. वजमोहन शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर डॉ. सुभाष जिन्दल, डॉ. निरंजन शर्मा सहित जिले के आयुर्वेद चिकित्सक व चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे।

इसी प्रकार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बोथपुरा में भी भगवान धन्वंतरि को जयंती का आयोजन किया गया। आयवेंद के जनक धन्वंतरि का पजन-अर्चन किया गया तथा डस मौके पर डॉ. सुभाष जिन्दल ने कहा कि यह सही है कि कोरोना महामारी में आयूर्वेद को अपनाने वालों की संख्या में खासी वद्धि हई. सरकार से रोग प्रतिरोधक श्रमता बढ़ाने वाली दवा, काढ़ा समेत तमाम औषधियां चिकित्सालयों में आर्थः। चिकित्सा कर्मियों ने चिकित्सालय से व घर-घर जाकर इनका वितरण किया। इनमें कई लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने संऋमण के कारण

7

पहली बार आयुर्वेदिक औषधियां इस्तेमाल को। मतकों के आश्रितों को 10 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकत

मुंतराव के आश्चता को 10 लोध स्थेय के संसर्थता ताल रवाय्यूत धीलपुरा तस्वराजा प्रसाव प्राप्त हुवे हैं। प्रभारी ऑफ्डागे सहावता एवं अतिरिक्त के नाम सहावता प्रसाव प्राप्त हुवे हैं। प्रभारी ऑफ्डागे सहावता एवं अतिरिक्त तिला कलस्वर रादेश कुमरा बाने न वाला कि प्राप्त स्वराप्त न प्रसान मुम्दा तिला कलस्वर रादेश के कारा वाययवाल के अनुसान उराप्त दुर्मटना में मुनको के आजितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुनता 10 लाख रूपये को सहायता रात्री स्वर्यकुत को गई है।

नाम स्थान सहित : उदयुद्द-दिम्पतनमर आमान परिवर्तन परियोजना के रखेंस में स्टेशन जमत- जारत (CH. 221840 से CH. 144000) के बीध कटाई केंत्र में चॉक फॉल संख्या, दलान निश्चेतेकाम वरूप नासारक कार्य हुता (3) कार्य की अनुमानित लामा र 7,44,11,399,49/- (4) जमा की जाने बाती स्थाना चाहि। 7,5,22,100/- (5) ई-निसिद प्रस्तात कले	प्रमुपुरे विकास आधिकरण, जयपुरे इतिहा सार्वाक सेरबारन भागे, जयपुर करिया सार्वाक सेरबारन भागे, जयपुर कर्मना के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र हामपुर देवरी क्यां कार, वहांति-सांकोर, जित-जयुर के आवंतित क्यांत भवत के मध्यूप/आंत्री क्यां क्यांदर किया के								
की तिथि : 08.12.2020 को 15:00 बजे तक (6) देवसाइट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा	ज्ञ. सं.	माम/तहसील	नं. आंशिक 100 1.14 सम्पूर्ण			वर्तमान खातेदा	र्तमान खातेदार का नाम		
देशी व भरी जा सकती है : www.ireps.gov.in (7) कार्यालय ई-मेल पता: dycecudz	1	ग्राम-मानपुर देवरी उर्फ गोल्पावास, तहसील-सांगानेर					जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर		
@gmail.com 842-DK/20 In the next factor of works 110 m tool 42	38	क्त योजना में स्थित भूखण्डपारियाँ	की सूची नि	नेम्नलिनि	वेत है :				
यनिवर्सल प्रोपर्टीज लिमिटेड	क्रं. भूखण्डधारी का भाम विता सं.			ता/पति	ो का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)		
CIN: L51103WB1960PLC024852 प्रेजीकृत कार्यालय: 238-ए, A.J.C. नोस	1	श्री बुद्धि प्रकाश श्री हनुमान सहाय	श्री तल्लू लाल जॉगिठ श्री राम प्रसाद जॉगिठ			1	709.44		
रोड, चंतूर्थ तल, कलकत्ता-700020 नेनसाहर : www.kanolgroup.in. ई-मेल : kanol@kanolgroup.in.	2	श्री रमेश चंद जांगिड़ श्री सुरेश कुमार जांगिड़	श्री नानूराम जॉगिड			2	274.86		
Strint : +913322905200	3	श्री कैलाश गुप्ता	श्री रघुन	न्दन ला	ाल गुप्ता	3	200.93		
फैल्मा : +913322905203	4	श्री लोकोन्द कुमार शर्मा	श्री लवन	ण स्वस	4	104.01			
शेरयधारकों के लिए सार्वजनिक सूचना योनसंल प्रोपटींज लि. के इक्लिटो शेयर धारको	5	श्री रागस्वरूप जांगिङ	श्री नारायण लाल जांगिड़			5	106.98		
यूगवसल प्रापटांव (ल. क हाक्वटा शवर चारक) (इसके परचात ''कम्पनी'' जाना वायेगा) को					6	527.05			
सेनी ऑर्डिर दिनोंक 19 अक्टूबर 2020 को अनुपालना में सेनी मीजूवा नियमावली के नियम	7	श्री नवीन बटवाठा श्री कैलाश बटवाठा श्री धनश्याम रावत श्री हरसहाय रावत				7	412.13		
27(3)(d) के तहत, आवरणकता से मिली जुट	8	श्री रमेश चंद जांगिड	श्री नानूराम जॉगिड श्री नानूराम जॉगिड श्री नानूराम जॉगिड			8	351.57		
व आदेश में लिखित कुछ शर्तों को पूर्वि के संबंध में और कलकता स्टॉक एक्सचेंव लि. द्वारा इक्लिटी	9	श्री सुरेश कुमार जांगिक				9	318.22		
ने जार कलकछ स्टाक एक्सपंच हो, द्वार्य शानदा रोयये (जब से '' प्रतिभाति'') के स्वैद्धिक निररण	10	श्री हनुमान सहाय जांगिड				10	246.16		
के संबंध में सार्वजनिक पोषणा जारी को जाती है।		श्री जगदीश प्रसाद जांगिय	श्री नानुराम जागिड		11	216.61			
वर्तमान में कम्पनी को प्रतिपूर्तियौँ (CSE)	12	श्री रागस्वरूप जांगिङ	श्री नारायण लाल जांगिठ श्री रमेश चंद जांगिठ		13	91.69			
कलकता स्टॉक एक्सचेंज लि. में सूचिनद्ध है। तर्जनर 13, 2020 को बोर्ड ऑफ डायरक्टर्स ने	13	श्रीमती सविता देवी जागिड			14	139.1			
नवंबर 13, 2020 को बांड आफ डायरकट्स न जपनी बेंदक में कलकता स्टॉक एक्सचेंज में	14	श्रीमती सुशीला देवी जॉगिड	श्री सुरेश कुमार जांगिड		15	183.64			
न्यापार नगण्यता को देखते हुए एवं प्रशासनिक	15	श्रीमती हंसा देवी जांगिड़	श्री हनुमान सहाय जांगित		16	250.45			
लागत व अतिरिक्त अनुपालन आनस्यकताओ	16	श्रीमती भगवती देवी	श्री जगदीश प्रसाद जांगिड		17	273.83			
आदि में बचत के अंग को ध्यान में रखते हुए		श्रीमती बबीता देवी	श्री मनीश शर्मा (जांगिड)		18-7	177.78			
SEBI नियमावली (प्रेफित इक्किटी रोगर) के अनुसार कलकता स्टीक स्टीक एक्सवेंज से		श्रीमती दुगां देवी	श्री माली			18	355.56		
अर्टन्यूनिय से संसिद्धक राज वाहि का राज है। स्रार्थक स्रीक कर गाज के संसर्थ ने वार्त कसो रेगर भारक को संसे आरांग से तो ने से स्रोटास्प्रास्त में के किस्ताद्धिकता प्रकार न स करफेश की स संपर्ध मुंध म संपर्ध का सर्वत के 1 रितर्स : 14/1/2020 सारा : सेर्टनिक से काइरेंग से स्रार स्रोटास्प्रार्थन के काइरेंग से स्रार स्रोटास्प्रिय के काइरेंग से स्रार स्रार्थना की सामर्थन के काइरेंग से स्रार स्रोटास्प्रक किसिये के कु स्रार स्रोटास्प्रक किसिये के कु स्रार स्रोटास्प्रक की सीमर्थन के काइरेंग से	आ अत खा प्रव (च मय प्रर मा	सा योजना-धीर सागर विश्तार, प्रा पांदन,/नियमन शिथिर दिगांक 19.1 इ- योजना को में आजे पाले खरता न तेतार/हितासरक/पूरावष्ठकारी/र शहान परवाल् / (सात) दिवस का र क्रिण द्विरीय), इन्द्र प्राय, सेवस्ट पा कुल करें अन्यवा उसर खरारा नम्बर नाम हरताराज्य/प्रशिल्यापन/र नमित्र एवं पदरस्वता सुपी जविप्रा स उल्लाक थे.	1.2020 से म्बर एवं भू म्ववित/संग फ्रेंग्य दिवस , सामुदादि वं आपरित में स्थित भू सबंदन/नि	20.11.2 खण्डमा रखा म उ ((जो में कि केन्द्र के समध् मि में वि विमन व	1020 को ल रियों की सू सन्य किसी के कम हो) 1 कम हो) 1 कम हो) 1 कम स्वयं कसित ये। की कार्यया	गाया जाना नियल ची से सम्बन्धित, र को आपल्ति हो र में, कार्यालय पूर्व्य वर, जयपुर में अप की पहचान के प्र- हना की चक्त सूर्व ही कर दी जायेर्ग	है। भगर किसी ो, विज्ञपित रेराज नगर नी आपरित नाम्प सहित ो के आधार ो। योजना		

उपयुक्त, जोन पी.आर.एन. (दक्षिणू-स्रितीय)

Live Smart

4.773.3

8,134.90

(15.23) (15.23)

(0.29)

Sd Dr. Kallash S Choudha Chairma DIN-0002382

.....

राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया खोले के हनमान जी मंदिर की वेबसाइट का लोकार्पण हनुमानजी भक्ति और शक्ति के प्रतीक पृथ्वी के साक्ष्यात देवता हैं : राज्यपाल न्यास के प्रबंधन को भी प्रशंसा की। हनुमानजी मंदिर की स्थापना में इससे पहले मंदिर प्रन्यास के महामंत्री ब्रजमोहन शर्मा और अध्यक्ष गिरधारी शर्मा ने खोले के ब्रम्हलीन राधेलाल जी चैबे और सन्त शिरोमणि नवरदास जी के

से प्रार्थना की।

धौलपर

वन नेशन वन राशन कार्ड की आधार सीडिंग

वन नेपन वन रागन कार्ट को आभार सोटिंग कायसवात की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर गांकेत कुमार आयरवात की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट में आयारवादी किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि अपार सोटिंग कर्म समय आपर मन्यर का मिलान करात आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वन नेवन वन रागन कार्ड के अंतर्गत रागन कार्ड में आधार सोटिंग अर्था तक आपर कार्य त्रार मांजा से संभव धी, लेकिन अब ऐसे व्यक्तियों विनका आपर अब तक बी जब है उन्हें से क्या जीरांग में प्राज्यां के प्राप्तका

नहीं बना है उन्हें आधार सीडिंग में परेशानी का सामन

नहां बना हे उन्हें आधार सााड़ा में परशान का सामना करता पढ़ रहा था परंतु अब आधार नेवर के साथ 28 डिविट की आधार प्रेंतीकरण संख्या के माध्यम से भी आधार सार्डिंग संपेथ है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास आधार कार्ड उपलव्भ नहीं हैं वह आधार सेंटर से अपना आधार प्रेंजीकरण करवांकर आधार प्रेंजीकरण संख्या से भी इंमित्रा संचालकों के माध्यम

जयपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण

नहिला राजाखेड़ा के द्वारा भाजयुमो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान मिट्टी वाले दिए जलाना अबकी बार दिवाली पर इस अभियान के तहत जिला

अध्यक्ष अजय सिंह परमार के निर्देशानुसार शहर के मुख्य बाजार में मण्डल अध्यक्ष प्रदीप सिंह बडगर्जर, जिला उपाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह चौहान

ला प्रवक्ता मजन सिंह जादौन, जिला मंत्री

शिवा गुर्जर दगरा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने

एक-एक दीपक देकर सभी दुकानदारों से अपील

की इस दीपावली पर चाइनीज चीजें ना खरीदें

इस दीपावली पर प्रत्येक घर में चाइनीज़ सामग्री

का बहिष्कार हो और मिट्टी के दीए जलाकर

दीपावली मनाई जाए और बताया कि यह अभियान धौलपुर जिले के सभी मण्डलों पर

आर.पी.उत्सयू.प.-1। लाख रूपये है। प्सपीपी कोड संख्या

DIPR/C/8979/2020

UBN 8 : PHE2021WSOB06603 UBN 8 : PHE2021WSOB06604

1.100

राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को खोले के हनुमानजी मंदिर न्यास की वेबसाइट का तोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वेबसाइट निर्माण से अब सुदूर स्थानों के, देश विदेश के अद्धालु आस्था के इस पावन धाम हनुमान मंदिर में हनुमान जी के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। मिश्र ने हनुमान जयंती और धनतेरस की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राजधानी जयपुर में पहाड़ों की खोह में पहाड़ पर लेटे खोले के हनुमानजी के मंदिर की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि

....



संकट दूर हो जाता है, इसीलिए जन जन में वह संकटमोचक कहलाते 書

राज्यपाल ने सन्त तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा की चर्चा करते हुए कहा कि चैपाइयों में यह हनुमान के जीवन चरित्र का सार है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पद पर आने के बाद राजभवन में उन्होंने सबसे पहले त्रिदिवसीय हनुमन्त चरित्र कथा का ही आयोजन करवाया था। हनुमान जी की कथ श्रवण से ही अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। मिश्र ने खोले के

चलाया जा रहा है साथ ही कोरोना काल में

से आधार सीडिंग करवा सकेंगे। 2 लाख 50 हजार राशनकाडौँ को आधार सीडेड कराने की कार्यवाही

की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के पास

को बाएगी। उन्होंने कहा कि तिन लाभाधियी के पास उपल काई उपलब के परंतु आभा काई रास्तुका नहीं है ऐसे लाभाधियों के आधार सॉहिंग हेतु अर्धरायन कराक उनका आधार काई बनवाए जोने और एगल काई को सॉहिंग आधार ने संक साथ किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं तथा आधार केंद्र सुचार रूप से खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि विन आधार काई बाड़ी में भारती घर टेट बैंक बाड़ी, बस्टु आधार काई बाड़ी में भारती घर टेट बैंक बाड़ी, बस्टु आधार काई बाड़ी में भारती घर टेट बैंक बाड़ी, बस्टु के आधार काई बाड़ी में भारती घर टेट बैंक बाड़ी, बस्टु के

में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र तिमसिय

में भारत iनमाण राजव गांधों सवा केन्द्र तिसासया एव पोस्ट ऑफ्स समेद्री, भीलपूर में राजीव गांधों सवा केन्द्र हिनौता, राजीव गांधों सेवा केन्द्र नुनेहरे तथा सरमयुग में भारत निर्माण राजीव गांधों सेवा केन्द्र आंगड़े, योस्ट ऑफिस सरमथुरा, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र रेहाई में अपने आधार कार्ड बनवा सकते है।

आर्थिक रूप से दम तोड़ चुके गरीब परिवार फुटकर व्यापारी आदि पुन: आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस दिशा में युवा मोर्चा कदम बढ़ा रहा है और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ कहा स्वदेशी अपनाओ चाडनीज भगाओ इस मौके पर जीतेंद्र सिंह, मंसरी सुनील, भोला सैन, श्रीकांत उदेनिया, दिलीप कमार, आजाद खान आदि लोग उपस्थित रहे

हनुमानजी मंदिर के इतिहास और विकास के बारे में जानकारी दी।

(दीपक बंसल)

अधीक्षण अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग, बीकानेर

Place : New Delhi Date : 12.11.2020

खेले करेगी। लेती कुम ने - तालना के जुग कर पर 0075-00-600-52-01 Nords Studi K0 Peopley एन प्रोर पर्षे जी - जाला के स्वार K842-00-108-00-01 Lisk Niman Kaya Jamis T S Managang Director, HS. Papako al Jagaro भा की रेषे जो, की - दालम के जुग कर बन्दा के 18 86560-012-016-02 Niman Virbang) के ग्रांग कर की नालना (जीवरणी जीपरी का 18 86560-012-016-02 Niman Virbang) के ग्रांग कर जी नालना (जीवरणी जीपरी का 18 86560-012-016-02 Niman Virbang) के ग्रांग कर जी नालना (जीवरणी जीपरी का 18 अपरी 18 अपरी 18 अपरी 19 जिसको कुम जा का जिसको आप पी जन्मू 1-00 के सामार जी तालू होगी। जुन 2 भार्ष है। जिसको कुन लाला 1958 जान स्वार्थ है।

दिनांक :- 21/10/2020

व अयोग तिर्विध बुदध गई थे पूर्व के संपर्ध उप्तेश-स्वतन दर्वन स्वर्थन के साम्योज है। यहां प्रदेश-रेश्वर (स्वर्थन में आईप्रेल)" के सीर्वस्व स्वरत के संपर्ध में स्वर्थन के आईप्रति (टाइ) के सीर्वन में स्वर्थन के आईप्रति (टाइ) करती के स्वर्थन के आईप्रति के स्वर्थन के स्वर्थन करता स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्थन करता स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्थन करता स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्धन संवर्धन करने स्वर्थन के स्वर्थन के संवर्धन संवर्धन करने स्वर्थन के स्वर्थन के संवर्धन संवर्धन करने स्वर्थन के स्वर्थन के संवर्धन संवर्धन करने स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्धन के संवर्धन संवर्धन करने स्वर्थन के स्वर्थन के स्वर्थन के संवर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन करने के स्वर्धन के स्वर्धन संवर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन करने के स्वर्धन के स्वर्धन के संवर्धन के स्वर्धन के संवर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के संवर्धन के स्वर्धन के स्वर स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर्धन के स्वर विल्लू १व उरावेश २० स्वे हे 14/1/2020 स्वार: श्रेलिन्दर्ज केंद्र के आदेश से पुजिबर्स-प्रोप्टर्ग के लिपिटेड देख स.स. प्रोप्टर (रिवेश रू.) DN: 00212577



1'E1 1/C/6808/2020-2021

EXTRACT OF CONSOLIDATED F ED SEPT ER 30, 2020 S FOR THE QUARTE LF YEAR Sep/20 naudited Sep/19 9,126.94 (360.07 (359.21 (491.21 Total income from operations Net Profit for the period (before tax and exceptional items) Net Profit for the period before tax (after exceptional items) Not Profit for the period before tax (after exception Net Profit for the period after tax (after exception Total Comprehensive Income for the period (Com Profit for the period (after tax) and Other Compre Income (after tax)] Paid-up Equity Capital (Face Value Rs 5 each) Other enaity (1,157.59) 8,134.90 (1,317.91) 8,134.90 (752.19) 8,134.90 8,134.90 8,134,90 Other equity Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic Diluted: (0.30) (0.30) (0.61) (0.98)

rterly/Half yearly ender Note : The above is an extract of the detaile Listing Obligations and Disclosure Require the Company's website i.e. www.akchontilb Regulation 3 ed results are anerty Financial results filed w ons 2015. The full format of the the stock exchance websites For and on behalf of the Board of Directo Aksh Optifibre Lin